

Date: 04.02.2026

To  
The Manager – Listing  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy  
Dalal Street, Mumbai-  
400001

To  
The Manager - Listing  
National Stock Exchange of India Exchange  
Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex,  
Bandra(E) Mumbai-400051

Ref: NSE Symbol: URJA

BSE Scrip Code: 526987

**SUBJECT: PUBLICATION OF UN-AUDITED (STANDALONE & CONSOLIDATED) FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31<sup>ST</sup> DECEMBER, 2025 IN NEWSPAPER PURSUANT TO REGULATION 47 OF SEBI (LISTING OBLIGATIONS & DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015.**

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 the company has published a statement of Un-Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and Nine months ended on 31<sup>st</sup> December, 2025 in the following newspapers:

1. Financial Express (English All Edition)
2. Jansatta (Hindi Edition)

The said results have been considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on 02nd February, 2026. Further details will be available on the website of the Company i.e. [www.urjaglobal.in](http://www.urjaglobal.in) and also on the website of Stock Exchanges at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) & [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Kindly take this information into your record.

Thanking You

**For URJA GLOBAL LIMITED**

**Mohan Jagdish Agarwal**  
**Managing Director**

Enclosed: Copy of Newspaper Clipping



EITA INDIA LIMITED  
[FORMERLY: E.I.T.A India Limited]  
CIN: L51109WB1983PLC035969  
Regd. Office: 20-B, Abdul Hamid Street,  
4th Floor, Kolkata-700 069,  
Phone: 033-22483203  
E-mail: eita.cal@eitain.com,  
Website: www.eitain.com

NOTICE  
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 meeting of the Board of Directors of the Company will be held at its Registered office at 20B Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata-700069 on Friday 13th February, 2026 at 1.30 P.M., inter alia to consider and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

By Order of the Board  
For EITA India Limited  
Sd/-  
Date: 03.02.2026 Arvind Kumar Lohia  
Place: Kolkata Managing Director  
The Notice is also available on the Company's website at [www.eitain.com](http://www.eitain.com) and on the Stock Exchange website at [www.cse-india.com](http://www.cse-india.com).

URJA GLOBAL LIMITED									
Regd. Office : 487/63, 1 <sup>st</sup> FLOOR, NATIONAL MARKET, PEERAGARHI, NEW DELHI - 110087 CIN:L67120DL1992PLC048963									
EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2025 (Rs. In Lakhs)									
S. No.	PARTICULARS	Standalone Quarter Ended			Consolidated Quarter Ended			Consolidated Year Ended	
		31.12.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operations (net)	1,451.21	1,541.36	1,435.39	1,461.42	1,549.76	2,019.69	5,032.86	6,724.73
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	61.17	78.17	36.92	24.67	41.50	53.13	208.09	202.85
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	61.17	78.17	36.92	24.67	41.50	53.13	208.09	202.85
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	61.17	78.17	36.92	24.67	41.50	53.13	144.12	138.18
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	61.17	78.17	36.92	24.67	41.50	53.13	144.12	138.18
6	Equity Share Capital	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01
7	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing operations)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Basic (Absolute Figures)	0.0110	0.0146	0.0069	0.0070	0.0050	0.0091	0.0270	0.0240
2.	Diluted	0.0110	0.0146	0.0069	0.0070	0.0050	0.0091	0.0270	0.0240
Notes :-									
1. The Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.									
2. The Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure.									
3. The EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.									
4. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 2nd February, 2026									
Place: New Delhi Date: 2nd February, 2026									
For Urja Global Limited Sd/- Mohan Jagdish Agarwal Managing Director DIN: 07627568									

TCI EXPRESS									
Regd. Office: Flat Nos. 306 & 307, 1-8-271 to 273, Ashoka Bhoopal Chambers, S.P. Road, Secunderabad, 500 003 (TG) Corp. Office: Plot No. 84, 3rd Floor, Institutional Area, Sector-32, Gurugram-122001, Haryana Tel.: + 91 124 2384090-94, E-mail: <a href="mailto:secretarial@tcieexpress.in">secretarial@tcieexpress.in</a> , Website: <a href="http://www.tcieexpress.in">www.tcieexpress.in</a>									
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025 (INR in Crores except as stated otherwise)									
Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended Dec 31, 2025	Nine Months Ended Dec 31, 2025	Quarter Ended Dec 31, 2024	Year Ended Mar 31, 2025	Quarter Ended Dec 31, 2025	Nine Months Ended Dec 31, 2025	Quarter Ended Dec 31, 2024	Year Ended Mar 31, 2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations (net)	317.13	919.30	298.89	1221.14	317.54	920.82	299.04	1,221.71
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	30.47	91.53	27.41	120.15	29.62	87.85	25.92	115.18
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	30.47	91.53	27.41	120.15	29.62	87.85	25.92	115.18
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional Items and/or Extraordinary Items)	22.88	69.08	20.68	90.78	22.03	65.40	19.19	85.81
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	22.54	68.92	20.10	90.02	21.69	65.24	18.61	85.05
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2)	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68
7	Other Equity				761.65				756.73
8	Earning per share -EPS (not annualized)-In Rs.								
	Basic Earning Per Share	5.96	17.91	5.39	23.66	5.74	16.89	5.00	22.36
	Diluted Earning Per Share	5.94	17.88	5.37	23.59	5.72	16.85	4.98	22.31
Notes:-									
1. The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange Websites: ( <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> ) and ( <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> ) and on the Company's Website ( <a href="http://www.tcieexpress.in">www.tcieexpress.in</a> ).									
2. The Financial Results of the Company for the Quarter ended December 31, 2025 were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 03, 2026. The Statutory Auditors of the Company have carried out the Limited Review of the same.									
3. The Board has approved payment of Interim dividend @350% (i.e. INR 7.00 per share) and February 07, 2025 shall be the record date for the purpose, decided inter consultation with Stock Exchanges.									
Place: New Delhi Date : February 03, 2026									
For TCI Express Limited Sd/- Dharmal Agarwal Chairperson (DIN: 00084105)									

...continued from previous page.

ASBA\*

Simple, Safe, Smart way of Application!!!

\*Applications Supported by Blocked Amount ("ASBA") is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA. **Mandatory in public issues. No cheque will be accepted.**

UPI

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE

UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors and Non Institutional Investor applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. Retail Individual Investors and Non-Institutional Investors also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021 read with press release dated September 17, 2021, CBDT Circular No. 3 of 2023 dated March 28, 2023.

ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors. UPI may be availed by (i) Retail Individual Investors in the Retail Category; (ii) Non-Institutional Investors with an application size of up to ₹ 500,000 in the Non-Institutional Portion. For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in the Bid Cum Application Form and the Abridged Prospectus can also please refer to the section "Offer Procedure" on page 521 of the RHP. The process is also available on the website of Association of Investment Bankers of India ("AIBI") and Stock Exchanges and in the General Information Document. The Bid Cum Application Form and the Abridged Prospectus can be downloaded from the websites of BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, the "Stock Exchanges" and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at [www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=35](http://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=35) and <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=43>, respectively as updated from time to time. For the list of UPI apps and banks live on IPO, please refer to the link: [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in). UPI Bidders Bidding using the UPI Mechanism may apply through the SCSBs and mobile applications whose names appear on the website of SEBI, as updated from time to time. Axis Bank Limited and HDFC Bank Limited have been appointed as the Sponsor Banks for the Offer, in accordance with the requirements of SEBI circular dated November 1, 2018 as amended. For Offer related queries, please contact the BRLMs on their respective email IDs as mentioned below. For UPI related queries, investors can contact NPCI at the toll free number: 18001201740 and mail ID: [ipo.upi@npci.org.in](mailto:ipo.upi@npci.org.in).

AN INDICATIVE TIMETABLE IN RESPECT OF THE OFFER IS SET OUT BELOW:			
Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):		Bid/Offer Period	
Bid/Offer Period (except the Bid/Offer Closing Date)		EVENT	INDICATIVE DATE
Submission and Revision in Bids	Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (Indian Standard Time ("IST"))	BID/OFFER OPENS ON <sup>(1)</sup>	MONDAY, FEBRUARY 09, 2026
	<b>Bid/Offer Closing Date*</b>	BID/OFFER CLOSES ON <sup>(2)(3)</sup>	WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026
Submission of Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – For RILs, other than QIBs and Non-Institutional Investors	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST	<sup>(1)</sup> UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.	
Submission of Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST	BID/OFFER PROGRAMME	
Submission of Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications)	Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST	EVENT	INDICATIVE DATE
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST	FINALIZATION OF BASIS OF ALLOTMENT WITH THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE	On or about Thursday, February 12, 2026
Submission of Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and Non-Institutional Investors)	Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST	INITIATION OF REFUNDS (IF ANY, FOR ANCHOR INVESTORS)/UNBLOCKING OF FUNDS FROM ASBA ACCOUNT*	On or about Friday, February 13, 2026
		CREDIT OF EQUITY SHARES TO DEMAT ACCOUNTS OF ALLOTTEES*	On or about Friday, February 13, 2026
		COMMENCEMENT OF TRADING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES	On or about Monday, February 16, 2026
<b>Modification/ Revision/cancellation of Bids</b>		<sup>(4)</sup> In case of (i) any delay in unblocking of amounts in the ASBA Accounts (including amounts blocked through the UPI Mechanism) exceeding two Working Days from the Bid/Offer Closing Date, for cancelled/withdrawn/deleted ASBA Forms, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹ 100 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher, from the date on which the request for cancellation/ withdrawal/ deletion is placed in the Stock Exchanges bidding platform until the date on which the amounts are unblocked (ii) any blocking of multiple amounts for the same ASBA Form (for amounts blocked through the UPI Mechanism), the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹ 100 per day or 15% per annum of the total cumulative blocked amount except the original application amount, whichever is higher from the date on which such multiple amounts were blocked till the date of actual unblock; (iii) any blocking of amounts more than the Bid Amount, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹ 100 per day or 15% per annum of the difference in amount, whichever is higher from the date on which such excess amounts were blocked till the date of actual unblock; (iv) any delay in unblocking of non-allotted/ partially allotted Bids, exceeding four Working Days from the Bid/Offer Closing Date, the Bidder shall be compensated at a uniform rate of ₹ 100 per day or 15% per annum of the Bid Amount, whichever is higher for the entire duration of delay exceeding two Working Days from the Bid/Offer Closing Date by the intermediary responsible for causing such delay in unblocking. The BRLMs shall, in their sole discretion, identify and fix the liability on such intermediary or entity responsible for such delay in unblocking. The Bidder shall be compensated by the manner specified in the SEBI ICDR Master Circular, which for the avoidance of doubt, shall be deemed to be incorporated in the deemed agreement of our Company with the SCSBs, to the extent applicable issued by SEBI, and any other applicable law in case of delays in resolving investor grievances in relation to blocking/unblocking of funds. The processing fees for applications made by UPI Bidders using the UPI Mechanism may be released to the remitter banks (SCSBs) only after such banks provide a written confirmation in compliance with the SEBI ICDR Master Circular, which has also prescribed that all individual investors applying in initial public offerings opening on or after May 1, 2022, where the application amount is up to ₹500,000, shall use UPI. RIBs and individual investors Bidding under the Non-Institutional Portion Bidding for more than ₹ 200,000 and up to ₹500,000 using the UPI Mechanism, shall provide their UPI ID in the Bid-cum-Application Form for Bidding through Syndicate, sub-syndicate members, Registered Brokers, RTAs or CDPs, or online using the facility of linked online trading, demat and bank account (3 in 1 type accounts), provided by certain brokers. The processing fees for applications made by the UPI Bidders may be released to the remitter banks (SCSBs) only after such banks provide a written confirmation on compliance with SEBI ICDR Master Circular.	
Upward Revision of Bids by QIBs and Non-Institutional Investors categories <sup>4</sup>	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 4.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date		
Upward or downward Revision of Bids or cancellation of Bids by RILs	Only between 10.00 a.m. on the Bid/Offer Opening Date and up to 5.00 p.m. IST on Bid/Offer Closing Date		
Our Company and Selling Shareholders in consultation with the BRLMs, may decide to close the Bid/ Offer Closing Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/ Offer Closing Date, in accordance with the SEBI ICDR Regulations.			
*UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Offer Closing Date.			
*QIBs and Non-Institutional Investors can neither revise their bids downwards nor cancel/ withdraw their Bids.			
On the Bid/Offer Closing Date, the Bids shall be uploaded until:			
(i) 4:00 p.m. IST in case of Bids by QIBs and Non-Institutional Investors, and			
(ii) until 5:00 p.m. IST or such extended time as permitted by the Stock Exchanges, in case of Bids by RILs.			
On Bid/Offer Closing Date, extension of time may be granted by Stock Exchanges only for uploading Bids received by RILs after taking into account the total number of Bids received and as reported by the BRLMs to the Stock Exchanges.			

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company and Selling Shareholders may, in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, will be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the other Members of the Syndicate and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process, in compliance with Regulation 6(2) of the SEBI ICDR Regulations, wherein at least 75% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to QIBs (the "QIB Category"), provided that our Company in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Category to Anchor Investors (as defined hereinafter), on a discretionary basis (the "Anchor Investor Portion"), of which 33.33% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for domestic Mutual Funds and 6.67% of the Anchor Investor Portion shall be reserved for life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Category (excluding the Anchor Investor Portion) ("Net QIB Category"). Further, 5% of the QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only and the remainder of the Net QIB Category shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. If at least 75% of the Offer cannot be allotted to QIBs, then the entire application money will be refunded forthwith. Further, not more than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Investors (the "Non-Institutional Category") of which one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 200,000 and up to ₹ 1,000,000 and two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with an application size of more than ₹ 1,000,000 and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. The allocation to each Non-Institutional Investor shall not be less than the minimum application size, subject to availability of Equity Shares in the Non-Institutional Category and the remaining available Equity Shares, if any, shall be allocated on a proportionate basis in accordance with the conditions specified in this regard in Schedule XII of the SEBI ICDR Regulations. Further, not more than 10% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors (the "Retail Category") in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All Bidders (other than Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer through the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID for UPI Bidders (defined hereinafter)) in which the Bid Amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, specific attention is invited to "Offer Procedure" on page 521 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through UPI Mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID and UPI ID available (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI mechanism) as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk. Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS				REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<b>Axis Capital Limited</b> 1 <sup>st</sup> Floor, Axis House, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: <a href="mailto:ayefinance ipo@axiscap.in">ayefinance ipo@axiscap.in</a> Website: <a href="http://www.axiscapital.co.in">www.axiscapital.co.in</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:complaints@axiscap.in">complaints@axiscap.in</a> Contact person: Tosit Agarwal SEBI registration no.: INM000012029	<b>IIFL Capital Services Limited (formerly known as IIFL Securities Limited)</b> 24 <sup>th</sup> Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013, Maharashtra, India Tel: +91 22 4646 4728 E-mail: <a href="mailto:ayefinance ipo@iiflcap.com">ayefinance ipo@iiflcap.com</a> Website: <a href="http://www.iiflcapital.com">www.iiflcapital.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:ig_ib@iiflcap.com">ig_ib@iiflcap.com</a> Contact person: Dhruv Bhavsar/ Pawan Kumar Jain SEBI registration no.: INM000010940	<b>JM Financial Limited</b> 7 <sup>th</sup> Floor, Chenergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6630 3030 E-mail: <a href="mailto:ayefinance ipo@jmfli.com">ayefinance ipo@jmfli.com</a> Website: <a href="http://www.jmfli.com">www.jmfli.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:grievance_ibd@jmfli.com">grievance_ibd@jmfli.com</a> Contact person: Prachee Dhuri SEBI registration no.: INM000010361	<b>Nuvama Wealth Management Limited</b> 801-804, Wing A, Building No. 3, Inspire BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4009 4400 E-mail: <a href="mailto:ayefinance@nuvama.com">ayefinance@nuvama.com</a> Website: <a href="http://www.nuvama.com">www.nuvama.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:customerservice.mb@nuvama.com">customerservice.mb@nuvama.com</a> Contact person: Lokesh Shah SEBI registration no.: INM000013004	<b>KFin Technologies Limited</b> 301, The Centrum, 3 <sup>rd</sup> Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Mumbai – 400 070, Maharashtra, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: <a href="mailto:ayefinance ipo@kfintech.com">ayefinance ipo@kfintech.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:inward.ris@kfintech.com">inward.ris@kfintech.com</a> Contact person: M Murali Krishna SEBI registration no.: INR000000221	<b>Vipul Sharma</b> <b>AYE FINANCE LIMITED</b> Unit No. 701-711, 7th Floor, Unitech Commercial Tower-2, Sector-45, Arya Samaj Road, Gurugram 122 003, Haryana, India



# 

**फ़ार्म सॅ. आईएनसी-26** (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दिल्ली राज्य से हरियाणा राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन **क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र के समक्ष** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा 4 और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 की उपधारा (5) के खंड (ए) के मामले में ..... अधिकारकर्ता।

और लाओस वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (सीन: **U63030DL2021PTC377263**) जिसका पंजीकृत कार्यालय कार्यालय सं., 202, द्वितीय तल विक्रमादित्य टावर, अलकनन्दा मार्केट, दक्षिण दिल्ली, कालकाजी, दिल्ली, भारत, 110019 के मामले में

एनइद्राहा सृजित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूत एव निविदा बोर्ड (सूचीबद्ध दाखिल और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों की 2015 के विनियम 29 एंव 33 के अनुसार में कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मतानुसार, 10 फरवरी, 2026 को सी-53-54, सेक्टर-57, फॉक-18, दिल्ली नगरपालिका नगर, सांघट, उत्तर प्रदेश-201301, विश्व कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य व्यक्ति के साथ, 31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त किया जायेगी और कंपनी के अंतर्गत के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विश्लेषण एवं अनुमोदित किए जाएंगे। एव सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.amcoindiaimited.com](http://www.amcoindiaimited.com) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

यसको कोई इंडिया लिमिटेड हस्ता/— स्थान: नोएडा, यूपी, राजीव गुला दिनांक: 02.02.2026 प्रबंध निदेशक

दिनांक: 04.02.2026 स्थान: दिल्ली

**किंगड डिजिटल लिमिटेड** (पूर्व हिंदु जिल्ड नोडस लिमिटेड) सीआईएन : L6312DIL1985PLC373141 पंजीकृत कार्यालय : 403 प्रताप विहार, 17, पर्वत क्षेत्र, दिल्ली-110043 फोन : 011-4542374 कॉर्पोरेट कार्यालय कार्यालय विभाग, प्लॉट नंबर 1, बी नोडस, सेक्टर 16, विश्व लिटी, नोएडा-201301 फोन 0120-4758168, वेबसाइट [www.quantigital.in](http://www.quantigital.in) ईमेल [cs@thequant.com](mailto:cs@thequant.com)

**पोर्टल बैटल की सूचना**

सदस्यों को एनवायरा सृजित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और अन्य लागू प्रावनों का साथ पढ़ी जाने वाली धारा 110 के साथ पठित, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (प्रबंधन नियम) के नियम 20 और 22 (जिसमें समय-समय पर लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियम शामिल है), भारतीय प्रतिभूति और निविदा बोर्ड (सूचीकरण दाखिल और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के विनियम 44, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (एसएस-2) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सेक्रेटरीयल रूटिंडेड, प्रत्येक संशोधित रूप में और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के साथ पढ़े जाने वाले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (एससीएर) द्वारा जारी सामान्य परिषद संख्या 14/2020 दिनांक 8 अक्टूबर, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिषद, नवीनतम, सामान्य परिषद संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों से नीचे दिए गए प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए पोर्टल बैटल (पोर्टल बैटल) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई-वोटिंग) से मतदान करके समर्थि मांग रही है।

कंपनी ने मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 को पोर्टल बैटल नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है। पोर्टल बैटल नोटिस विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजा गया है जिसमें ईमेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, रजिस्ट्रारल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एनसीए), या डिजिटल/डिजिटली पाटिसिपेंट्स के पास रजिस्टर्ड और अपवेटेड हैं। नोटिस उन सदस्यों को भेजा गया है जिसके नाम खुलासा, 30 जनवरी, 2026 (कट-ऑफ तारीख) को कंपनी के सदस्यों के नामों में था डिजिटल/डिआ बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं। कोई भी सदस्य जिसे पोर्टल बैटल नोटिस नहीं मिला है, वह डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करने के लिए कंपनी को [cs@thequant.com](mailto:cs@thequant.com) पर ईमेल भेज सकता है। पोर्टल बैटल नोटिस कंपनी की वेबसाइट यानी [www.quantigital.in](http://www.quantigital.in) और सेट्टल डिजिटल/डिजिटली लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट यानी [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट यानी [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) के संबंधित सेक्शन से भी डाउनलोड किया जा सकता है। एससीएर सचुवर के अनुपालन में, इस पोर्टल बैटल के लिए सदस्यों को पोर्टल बैटल नोटिस की हाई कोड को, पोर्टल बैटल फॉर्म और प्रोपेर विजनेस रिस्काई किफाफ के साथ नहीं भेजी जा रही है। तत्पश्चात, सदस्यों को अपना संचालन या विश्व कंबल रिस्काई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से गेटेड डालकर, फिजिकल पोर्टल बैटल फॉर्म भेजना करने के बजाय, सृजित करना होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि दुबारा, 4 फरवरी, 2026 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और गुरुवार, 5 मार्च, 2026 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तारीख को फिजिकल रूप में डाउनलोड/प्रिंट/प्रिंट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि खत्म होगी पर, सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को फिजिकल रूप दिया जाएगा। एका वोट डालने के बाद, चाहे वह पूरा हो या आंशिक, सदस्य को बाद में वोट बदलने या दोबारा वोट डालने की अनुमति नहीं होगी।

जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तारीख को सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों की सूची में हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कंपनी की बट-अप इक्विटी शेयर पूंजी में बट-ऑफ तारीख तक उनके पास मौजूद इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो बट-ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को कंबल जानकारी के लिए समझना चाहिए। जिनसे सदस्य फिजिकल तरीके के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सके। एससीएर के अनुसार, सदस्यों से अनुमति है कि वे कंबल इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही अपने वोट डालें। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया पोर्टल बैटल नोटिस में दी गई है। एससीएर सचुवर के अनुसार, जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पते रजिस्टर नहीं किए हैं और, जिसके परिणामस्वरूप, उन्हें पोर्टल बैटल नोटिस नहीं मिला है, वे पोर्टल बैटल नोटिस में बताई गई प्रक्रिया का पालन करके अपने ईमेल पते रजिस्टर या अपवेट कर सकते हैं। ईमेल पता सफलतापूर्वक रजिस्टर या अपवेट होने पर, सदस्य को पोर्टल बैटल नोटिस की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलेगी, साथ ही रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और इस पोर्टल बैटल के लिए रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक यूजर आईडी और पासवर्ड भी मिलेगा।

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेसर्स डीपीपी एंड एसोसिएट्स, एनएसपी के मैनेजिंग पार्टनर श्री देवेज कुमार वशिष्ठ, जिनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर 13700 है, को पोर्टल बैटल प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर (स्क्रूटिनाइजर) नियुक्त किया है। स्क्रूटिनाइजर रिमोट ई-वोटिंग की जांच पूरी होने पर कंपनी के चेरमैन या बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी को रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम सौंपेंगे। पोर्टल बैटल के परिणाम विवरण, 7 मार्च, 2026 को या उससे पहले घोषित किए जाएंगे। परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट [www.quantigital.in](http://www.quantigital.in) और सेट्टल डिजिटल/डिजिटली सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध करार जाएंगे और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और कार्पोरेट ऑफिस में भी प्रदर्शित किए जाएंगे। परिणाम निर्धारित समय के भीतर सीएसई लिमिटेड को भी सूचित किए जाएंगे।

सदस्यों द्वारा पोर्टल बैटल के माध्यम से पारित प्रस्तावों को ऐसा माना जाएगा जैसे कि वे सदस्यों की आम बैठक में पारित किए गए हों। बतौर प्रस्तावों के पक्ष में आवश्यक संख्या में वोट प्राप्त हुए हों। रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी सवाल या समस्या के मामले में, सदस्य [www.evotingindia.com](mailto:www.evotingindia.com) पर हेल्प सेक्शन में उपलब्ध अवरर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ईमेल कर सकते हैं या कंसल्टक रूप से आप आरटीसी से [pravin.cm@skynlinteria.com](mailto:pravin.cm@skynlinteria.com) पर या कंपनी से [cs@thequant.com](mailto:cs@thequant.com) पर संचित कर सकते हैं या भी अरबेड शर्मा, सीनियर मैनेजर, मतदानल लिम कंसाइड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परल (पूर्व), मुंबई-400013 से संपर्क कर सकते हैं या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18002109911 पर कॉल कर सकते हैं।

**किंगड डिजिटल लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरित/— तरण बैलवाल** **कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, एम. नं. ए39190**

दिनांक : 4 फरवरी, 2026 स्थान: नोएडा

**एचएमसीएल लिमिटेड** (पंजीकृत कार्यालय : 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, चंदाघाट, सोलन-173213 (हिमाचल प्रदेश) फोन : (+911792) 230664; फैक्स नंबर : (+911792) 231902; ई-मेल : [secretarial@hfcf.com](mailto:secretarial@hfcf.com) वेबसाइट : [www.hfcf.com](http://www.hfcf.com); कॉर्पोरेट पढ़ावन संख्या (सीआईएन) : L64200HP1987PLC007466

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ माह के लिए अ-लेखापरीक्षित एकल और समग्रित वित्तीय परिणामों का विवरण

31 दिसम्बर, 2025 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ माह के लिए कंपनी के अ-लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणाम **(“वित्तीय परिणाम”)** की समीक्षा द्वारा अनुशंसा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 03 फरवरी, 2026 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट <https://www.hfcf.com> पर पोस्ट किए गए हैं और क्यूआर कोड स्कैन करके देखे जा सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार

हस्ता: /— **(महेंद्र नाहटा)** प्रबंध निदेशक डीआईएन : 00052898 स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 03 फरवरी, 2026

**नोट : उपरोक्त सूचना सेबी (सूचीबद्धता दाखिल और प्रकटीकरण आवश्यकताें) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1) के साथ पठित विनियम 33 के अनुसार करें**

**हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** **शाखा कार्यालय एच-8, महात्मा ज्योति बंग रोड,सेक्टर-4, बैंगली, गाजियाबाद-201010** ईमेल : [auction@hindujahousingfinance.com](mailto:auction@hindujahousingfinance.com) **अचल संपत्ति के भौतिक कम्पे की सार्वजनिक सूचना**

सेवा में, 1. श्री मनोज कुमार कश्यप 2. श्री प्रदीप कश्यप और सुश्री पूजा दोनों का पता: मकान नंबर-349 मेहशपुरी राजीव विहार हाउड, राजीव विहार, बुलंदशहर रोड के पास हाउड, ग्रामीण, हापुड, उत्तर प्रदेश, भारत – 245011 जबकि मालिकी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा दिनांक 04-दिसंबर-25 को पारित आदेश के अनुसार,‘मकान नंबर 349, प्लॉट नंबर 68 और 69, खसरा नंबर 458 का हिस्सा, मोहल्ला मेहशपुरी राजीव विहार, हापुड, मोहल्ला मेहशपुरी राजीव विहार, एसीआई बैंक बी.एस. रोड हापुड के पास, हापुड, उत्तर प्रदेश, 245010 का सभी टुकड़ा एवं अंस का मौलिक कब्जा 29.01.2026 को मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। विशेष रूप से उपचारकर्ताओं और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन मेसर्स हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधीन होगा।

**दिनांक: 04.02.2026 स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी- हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

**पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय एनएमआर जेएनयू दिल्ली में विभिन्न सामग्री की आपूर्ति एवं सेवाओं हेतु फ़र्मों के रजिस्ट्रेशन**

वित्तीय वर्ष **2026-27** में विद्यालय में विभिन्न सामग्री की आपूर्ति एवं सेवाओं हेतु सेवाप्रदाताओं एवं वाणिज्यिक फ़र्मों के रजिस्ट्रेशन दिनांक **05/02/2026 से 19/02/2026 तक** किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म केन्द्रीय विद्यालय एनएमआर जेएनयू दिल्ली की वेबसाइट <https://newmehrauliroadjnu.kvs.ac.in/> के "What's New" सेक्शन से अथवा केन्द्रीय विद्यालय एनएमआर जेएनयू दिल्ली कार्यालय से निशुल्क प्राप्त: 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कार्यदिवसों में प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक **21/02/2026** तक विद्यालय कार्यालय में प्राप्त: 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कार्यदिवसों पर व्यक्तिगत / डाक द्वारा जमा कराकर एवं जमा की पावती प्राप्त कर अपनी फ़र्म का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। **प्राचार्य**

**एनवायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड** **सीआईएन : L31101DL2007PLC159075** **पंजीकृत कार्यालय:** ए-29, ब्लॉक ए, ग्रामविहार फेज-1, नई दिल्ली, दिल्ली-110043 **कॉर्पोरेट कार्यालय:** बी-1ए/19, कर्मशिवल कॉम्प्लेक्स, , सेक्टर 51, नोएडा-201307 **संपर्क नंबर:** +91-120-4337633, 4337439 | ईमेल: [cs@envirotechltd.com](mailto:cs@envirotechltd.com) वेबसाइट: [www.envirotechltd.com](http://www.envirotechltd.com)

**ीडियो कॉन्सल्टिंग/अन्य अतिथी-विज्ञान माध्यमों से होने वाली असाधारण आम बैठक के संबंध में जानकारी**

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि एनवायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) 27 फरवरी, 2026 को दोपहर 01:00 बजे पीडियो कॉन्सल्टिंग / अन्य ऑडियो विज्ञान माध्यम ("सीसी / ओवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि कंपनी के ईजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवस्थाओं का संचालन किया जा सके। ईजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावनों और 19 सितंबर, 2024, 5 मई, 2020 के परिषदों और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एससीए) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिषदों के साथ पढ़े गए लागू नियमों के अनुसार होने में होगी। ओवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना सीसी / ओवीएम के माध्यम से ईजीएम आयोजित करने की अनुमति देता है। उपरोक्त एससीए परिषदों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के परिषद दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, ईजीएम के नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी, जिसका ई-मेल पता कंपनी / डिजिटल/डिजिटली प्रतिभागिता के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यदि आपने कंपनी / डिजिटल/डिजिटली पाटिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपवेट नहीं किया है, तो कृपया इसे पंजीकृत / अपवेट करने के लिए नीचे दिए गए ईमेल पर निर्देशों का पालन करें:

भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य ईजीएम नोटिस और ई-वोटिंग निदेश प्राप्त करने के लिए एनवायरोटेक [investor.del@bigshareonline.com](mailto:investor.del@bigshareonline.com) पर विधित्त भरे हुए फॉर्म ISR-1 और उसकी स्कैन हस्ताक्षरित प्रतियां भेजकर अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत कर सकते हैं। बिगशेअर सर्विसेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं।

डीमेट कृपाया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने संबंधित डिजिटल/डिजिटली पाटिसिपेंट (DP) से साथ अपवेट करें।

सदस्य ध्यान दें कि ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट [www.envirotechltd.com](http://www.envirotechltd.com) और स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर उपलब्ध होगी। ईजीएम की सूचना ई-वोटिंग एजेंसी यानी सीडीएसएल की वेबसाइट [www.evoting.cdsl.com](http://www.evoting.cdsl.com) पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस और विशेष रूप से ईजीएम में शामिल होने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या ईजीएम में वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

**एनवायरोटेक सिस्टम्स लिमिटेड के लिए हस्ता/—** **इंसीएल – 51237**

**दिनांक: 03.02.2026** **सीएस पल्लवी शर्मा** (कंपनी सेक्रेटरी और अनुपालन अधिकारी) **एसीएल – 51237**

**हीरो फिनकोर्प लिमिटेड** **सीआईएन : U74899DL1993PLC023540** **पंजी. कार्यालय : 34, अनामोलिका रोड, वरान लोड, कर्मशिवल, नई दिल्ली-110057** **फ़ोन : 011-4949 7100, फैक्स : 011-4949 7107, 011-4948 7198** **ईमेल : [litigation@herofincorp.com](mailto:litigation@herofincorp.com)** **वेबसाइट : [www.herofincorp.com](http://www.herofincorp.com)**

**वित्तीय परिषदसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्मिर्माण तथा प्रतिभूति दित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना**

जबकि हीरो फिनकोर्प लिमिटेड (एफएससीए), एक एम-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, के अधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिषदसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्मिर्माण तथा प्रतिभूति दित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (54 औं अधिनियम) (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) के प्रावनों के तहत तथा प्रतिभूति दित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 17.11.2025 को एक आम सूचना जारी की है, जिसमें निम्नलिखित को आमंत्रित किया गया है:

1. मेसर्स दीवान ओवरसीज (सह-अग्रकर्ता) / पाताधारक संख्या 1) अपने स्वामी के माध्यम से, पता – निगमन मुल, 4-5 एन पी टावर, संजय चौक, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा-132103 2. मेसर्स ईरक इन्फ्रानेस (सह-अग्रकर्ता) / पाताधारक संख्या 2) अपने स्वामी के माध्यम से, पता – निगमन मुल, एन पी टावर, संजय चौक, जीटी रोड, पानीपत, हरियाणा-132103 3. श्री कनक दीवान (सह-अग्रकर्ता) / पाताधारक संख्या 3) पुत्र कपिल दीवान, स्वामी, पता – मकान संख्या 299 एल, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा-132103, अन्य पता यहां पर भी : मकान संख्या ए-110, अंसल टाउन, सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा-132001 4. श्रीमती अंशी रस्तोगी (सह-अग्रकर्ता) / पाताधारक संख्या 4) पता – पुत्री पुनीत कुमार रस्तोगी, 710/711 जगदीश सरण स्कूल, सोतीगंज, मेरठ, बेगम संगम, उत्तर प्रदेश-250001, अन्य पता यहां पर भी : मकान संख्या ए-110, अंसल टाउन सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा-132001 5. श्री कपिल दीवान (सह-अग्रकर्ता) / पाताधारक संख्या 5) पुत्र कपिल दीवान, स्वामी, पता – मकान संख्या ए-110, अंसल टाउन सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा-132001, अन्य पता यहां पर भी : मकान संख्या ए-60, अंसल टाउन सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा-132001 6. श्रीमती रघु दीवान (सह-अग्रकर्ता) / पाताधारक संख्या 6) पत्नी कपिल दीवान, पता – मकान संख्या 299 एल, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा-132103, अन्य पता यहां पर भी : मकान संख्या ए-110, अंसल टाउन सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा-132001

(हरेक बाद सामूहिक रूप से 'अग्रकर्ता' कहा जाएगा) इनको सूचना में उल्लिखित राशि रु. 2.08.20.654.74 /— (दोपह दो करोड़ आठ लाख बीस हजार छह सौ बीस और चौहत्तर पैसे मात्र), जो 11.11.2025 के अनुसार देय है, का लावा ब्याज और अन्य शुल्कों सहित, उक्त सूचना की प्रतिलि की तथि से साठ (60) दिनों के भीतर चुकानी होगी। अग्रकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, अग्रकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्तराशी में प्रभुमूर्ति दित (प्रवर्तन) निगमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 02-02-2026 को नीचे वर्णित परिणियों पर कब्जा कर लिया है। अग्रकर्ता को विशेष रूप से और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन एफएससीए द्वारा रु. 2.08.20.654.74 /— (दोपह दो करोड़ आठ लाख बीस हजार छह सौ बीस और चौहत्तर पैसे मात्र) की राशि, दिनांक 11.11.2025 को देय, साथ ही लागू ब्याज और अन्य शुल्कों, के प्रभार के अधीन होगा।

अग्रकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावनों की और आकर्षित किया जाता है, जो निम्नी रही हैं। संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

**अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार है :**

मिनोसिडि ग्रीन/संपत्ति के वे सभी टुकड़े या अंस जिसका क्षेत्रफल 419.80 वर्ग गज है, जो प्लॉट संख्या ए-110, अंसल टाउन, सुभाष सिटी, सेक्टर 36, करनाल, हरियाणा में स्थित, श्री कनक दीवान के स्वामित्व में है।

**स्थान : करनाल, हरियाणा हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी**

**दिनांक : 02-02-2026**

**हीरो फिनकोर्प लिमिटेड**

# 

**समाचार पत्र विज्ञापन** **केन्द्रीय सरकार के समक्ष – केन्द्रीय पंजीकरण केंद्र (CRC), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (IICA), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर-16, आईएमटी मानेश्वर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) – 122050** सीमित दाखिल भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा सीमित दाखिल भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के अंतर्गत, तथा **UNSB PRINTSPHERE MEDIA GROUP LLP (LLPIN is ACF-3654)** के संबंध में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 704, 7वीं मंजिल, ग्राम कोर्ट, मेहरीली-गुरुग्राम रोड, सेक्टर-16, गुरुग्राम, हरियाणा – 122007 में स्थित है।

**सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि उक्त एलएलपी सीमित दाखिल भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(3) के अंतर्गत कंपनी रजिस्ट्रार, उत्तराखंड एवं हरियाणा के समक्ष याथिका प्रस्तुत कर अपने पंजीकृत कार्यालय को "हरियाणा" राज्य से "उत्तराखंड" राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति चाहती है।** प्रस्तावित परिवर्तन के अंतर्गत पंजीकृत कार्यालय को "704, 7वीं मंजिल, ग्राम कोर्ट, मेहरीली-गुरुग्राम रोड, सेक्टर-16, गुरुग्राम, हरियाणा-122007" से बदलकर "मेथानी कॉम्प्लेक्स, साई लोक कॉलोनी, न्यू एरा अकैंडमी के पास, करबारी घाट, बड़ोलावा, शिमला काइराथ, देहरादून – 248007, उत्तराखंड" किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति के हित उक्त परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह इस राज्य के प्रकाशन की तथि से 21 **(इक्कीस)** दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति एवं विशेष के आधार का उल्लेख करते हुए **साक्ष्य-पत्र** द्वारा समर्थित आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा केन्द्रीय पंजीकरण केंद्र (**IICA**), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (**CRC**), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेश्वर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) – 122050 को भेज सकता है, तथा उसकी एक प्रति याथिकाकर्ता एलएलपी को उपयुक्त पते पर भी भेजनी होगी।

**UNSB PRINTSPHERE MEDIA GROUP LLP** की ओर से एवं उनके लिए **उदय नारायण सिंह बिष्ट** (नामित भागीदार) मेथानी कॉम्प्लेक्स, साई लोक कॉलोनी, न्यू एरा अकैंडमी के पास, करबारी घाट, बड़ोलावा, शिमला काइराथ, देहरादून – 248007

दिनांक: 3 फरवरी 2026 स्थान : देहरादून

**पंजीकृत कार्यालय : 71/1, शिवाजी नगर, नई दिल्ली-110015** **कॉर्पोरेट विवरण संख्या : L74899DL1993PLC056652** **ई-मेल : [investors@valiantcom.com](mailto:investors@valiantcom.com) वेबसाइट : [www.valiantcom.com](http://www.valiantcom.com) दूरभाष : 011-25928415**

**31.12.2025 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम** (रुपय लाख में, लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	चातु समाप्त अवधि हेतु वर्ष तक के आंकड़े
	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2024 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2025 (अलेखापरीक्षित)
प्रचालन से कुल आय (निवल)	2,214.22	835.69	6,062.89
अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	819.03	(90.20)	2,142.40
कर पूर्व अवधि शुद्ध निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के परभाव)	819.03	(90.20)	2,142.40
कर परभाव अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के परभाव)	604.83	(53.26)	1,600.99
कुल व्यापक आय (कर परभाव)	613.29	(53.85)	1,636.71
इक्विटी शेयर पूंजी	1,144.21	762.81	1,144.21
अन्य प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व तथा परभाव)–नॉर्मल (रु. में)	629	(0.47)	14.02
–हाइब्रिड (रु. में)	528	(0.47)	14.02